

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० ४८]

नई दिल्ली, मंगवार, मार्च २, १९७०/फाल्गुन १३, १९९१

No. 43]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1970/PHALGUNA 11, 1991

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March 1970

**G.S.R. 394.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 62 read with section 77, of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government, after consultation with the Election Commission, hereby makes the following rules, namely:—

### CHAPTER I—Preliminary

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Elections to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969);

(b) "casual vacancy" means a vacancy in the office of a member of the Provisional Legislative Assembly referred to in sub-section (5) of section 62;

(c) "constituency" means a constituency of the Legislative Assembly of Assam as is comprised within Meghalaya;

- (d) "election" means the general election for constituting the Provisional Legislative Assembly and includes a bye-election to fill a casual vacancy;
- (e) "elector" means an elected member of a district council of an autonomous district within Meghalaya referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 62;
- (f) "electoral college" means an electoral college referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 62;
- (g) "form" means a form annexed to these rules;
- (h) "Official Gazette" means the Gazette of India;
- (i) "Provisional Legislative Assembly" means the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya referred to in section 62;
- (j) "public holiday" means a day which is a public holiday for the purposes of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881);
- (k) "section" means a section of the Act.

#### CHAPTER II—*Election of Members for the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya*

##### 3. Notification for general election to the Provisional Legislative Assembly.—

(1) As soon as may be after the commencement of these rules, a general election shall be held for the purpose of constituting the Provisional Legislative Assembly.

(2) For the purpose referred to in sub-rule (1), the Governor shall, by one or more notifications published in the Official Gazette on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon each electoral college to elect members in accordance with the provisions of these rules and the orders made thereunder.

#### CHAPTER III—*Appointment of Returning Officers and Nominations of Candidates.*

4. **Returning Officer and Assistant Returning Officer.**—(1) There shall be a returning officer for every election who shall be such officer of Government as the Election Commission may appoint.

(2) The Election Commission may appoint any officer of Government as an assistant returning officer for each electoral college to assist the returning officer in the performance of his functions.

(3) Every assistant returning officer shall, subject to the control of the returning officer, be competent to perform all or any of the functions of the returning officer.

(4) References in these rules to the returning officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include an assistant returning officer performing any functions of the returning officer.

5. **List of members of electoral college.**—The returning officer shall maintain lists of electors with their addresses corrected up-to-date and different lists shall be maintained for different electoral colleges.

6. **Appointment of dates for nominations etc.**—As soon as the notification calling upon an electoral college to elect a member or members is issued under rule 3, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint—

- (a) the last date for making nominations which shall be the seventh day after the date of publication of the first mentioned notification, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (b) the date for the scrutiny of nominations which shall be the day immediately following the last date for making nominations, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (c) the last date for the withdrawal of candidatures which shall be the second day after the date for scrutiny of nominations, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (d) the date on which a poll shall, if necessary, be taken, which shall be a date not later than the seventh day after the last date for the withdrawal of candidatures; and
- (e) the date before which the election shall be completed.

**7. Notice of intended election.**—On the issue of a notification under rule 6 the returning officer shall give public notice of the intended election in Form 1 and cause to be published in such manner, in such language or languages, and at such places, as the Election Commission may direct.

**8. Nomination of candidates for election.**—(1) A person is nominated as a candidate for election to fill a seat under these rules as soon as a nomination paper completed in Form 2 is signed both by a proposer nominating that person as such candidate and by that person as assenting to the nomination although the nomination paper may be delivered to the returning officer under rule 9 on a different date.

(2) A person may be nominated as a candidate for election as aforesaid to fill a seat if he is qualified, at the time of delivery of nomination paper under sub-rule (1), to be chosen to fill that seat under such of the provisions of the Constitution, the Act and these Rules, as may be applicable:

Provided that a person shall not be deemed to be so qualified to be chosen to fill a seat unless he makes and subscribes before the returning officer or an assistant returning officer an oath or affirmation according to Form 3 set out for the purpose.

(3) The word "proposer" wherever it occurs, whether under this rule or in any other rule, means a person who is entitled to vote at the election to which the nomination relates.

**9. Presentation of nomination papers.**—(1) On or before the date appointed under clause (a) of rule 6, each candidate shall, either in person or by his proposer, between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon deliver to the returning officer or the assistant returning officer at the place specified in this behalf in the notice issued under rule 7 a nomination paper completed in Form 2 and signed by the candidate and by his proposer:

Provided that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday.

(2) Any nomination paper which is not received before three o'clock in the afternoon on the last date appointed under clause (a) of rule 6 shall be rejected.

(3) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper for the same election:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the returning officer.

**10. Procedure on receipt of nomination papers.**—On the presentation of a nomination paper, the returning officer shall—

- (a) sign thereon a certificate stating the date and the time of presentation of the nomination paper and enter thereon its serial number;
- (b) inform the person presenting the nomination paper of the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations; and
- (c) cause to be affixed in some conspicuous place in his office a copy of the nomination paper as certified and numbered under clause (a) of this rule.

**11. Scrutiny of nominations.**—(1) The candidates, one proposer for each candidate and one other person duly authorised in writing by each candidate, shall be entitled to be present at the time of scrutiny of nominations; and the returning officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered within the time and in the manner laid down in rule 9.

(2) The returning officer shall then examine the nomination papers and decide all objections which may be made to any of them.

(3) The returning officer, may, either on such objection or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, reject a nomination paper on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the candidate is not qualified under sub-section (4) of section 62 or sub-rule (2) of rule 8, or
- (b) that the proposer is not entitled to vote at the election to which the nomination relates; or
- (c) that the signature of the candidate or proposer is not genuine or has been obtained by fraud; or

- (d) that the nomination paper has not been duly completed and the defect or irregularity is of a substantial character.

(4) For the purposes of this rule, a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force of a constituency shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that constituency unless it is proved that he is subject to a disqualification mentioned in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(5) The returning officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of rule 6 and shall not allow any adjournment of the proceedings.

(6) The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision either accepting or rejecting it and if the nomination paper is rejected, he shall record a brief statement of his reasons for rejecting it.

**12. Withdrawal of candidature.**—(1) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing in Form 4 signed by him and delivered before three o'clock in the afternoon on the date fixed under clause (c) of rule 6 to the returning officer either by such candidate in person or by his proposer who has been authorised in his behalf in writing by such candidate.

(2) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) shall be allowed to cancel the notice.

(3) On receipt of such notice, and after being satisfied as to its genuineness, the returning officer shall note thereon the date on which and the hour at which it was delivered, and cause a copy thereof together with the note, to be affixed in some conspicuous place in his office.

**13. Publication of list of contesting candidates.**—In case a poll is to be taken under these rules, the returning officer shall, immediately after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under rule 12—

(a) prepare in Form 5 a list containing the names and addresses of the contesting candidates, in the order in which their nominations are presented, together with their addresses (as given in the nomination papers), that is to say candidates whose nomination papers have been found valid and who have not withdrawn their candidature in accordance with rule 12.

(b) cause the said list to be published in such manner as the Election Commission may direct; and

(c) cause a copy of the said list to be affixed in some conspicuous place in his office.

**14. Death of candidate and countermand of poll.**—(1) In the following cases, that is to say,—

(a) if a candidate dies at any time after 11 a.m. of the last date for making nominations appointed under sub-rule (a) of rule 6, but on scrutiny of nominations under rule 11 his nomination is found valid, or

(b) if a candidate whose nomination has been found valid on scrutiny under rule 11 and who has not withdrawn his candidature under rule 12 dies at any time after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under sub-rule (1) of rule 12 and in either case the death occurs before the declaration of the result of the election under these rules and a report of the death is received at any time before such declaration, the returning officer shall upon being satisfied about the fact, date and time of the death of the candidate, by order countermand the poll and report the fact to the Election Commission and also to such other authority as may be specified by the Commission and all proceedings with reference to the election shall be commenced anew in all respects as if for a new election:

Provided that no order countermanding a poll shall be made except after the scrutiny of all the nominations including the nomination of the deceased candidate.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that no order countermanding a poll shall be made—

(a) where the nomination of a deceased candidate is rejected on scrutiny under rule 11; or

(b) where a deceased candidate withdrew his candidature in accordance with rule 12.

(3) Notwithstanding that a poll has been countermanded—

(a) no further nomination shall be necessary in the case of a person whose nomination has been found valid on scrutiny and who has not withdrawn his candidature;

(b) no person who has given notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) of rule 12 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

#### CHAPTER IV—*The Poll*

**15. Procedure in contested and uncontested elections.**—(1) If the number of contesting candidates is more than the number of persons to be elected a poll shall be taken.

(2) If the number of such candidates is equal to the number of persons to be elected, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be duly elected to fill these seats.

(3) If the number of such candidates is less than the number of persons to be elected, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be elected and the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, call upon the electors concerned to elect a person or persons to fill the remaining seat or seats before due date as may be specified in that notification.

**16. Fixing place and time of poll.**—At every election where a poll is to be taken, the Election Commission shall,—

(a) fix the place at which the poll will be taken for such election;

(b) fix the hours during which the poll will be taken at such place; and

(c) give due publicity to the place and the hours so fixed.

**17. Conduct of poll by the returning officer.**—The returning officer shall conduct the poll at the place fixed for the poll.

(2) The returning officer may appoint such polling officer or officers as he thinks necessary to assist him in taking the poll, but he shall not so appoint any person who has been employed by, or on behalf of, or has been working for, a candidate in or about the election.

**18. Manner of voting at election.**—At the election where a poll is taken, votes shall be given by secret ballot in accordance with these rules and no votes shall be received by proxy.

**19. Ballot papers.**—(1) The ballot papers shall be in such form and the particulars therein shall be in such language or languages as has been previously approved by the Election Commission.

(2) The names of the candidates shall be printed on the ballot paper in the same order as in the list of contesting candidates published under rule 13.

**20. Ballot Boxes.**—Every ballot box used at the poll shall be of a design previously approved by the Election Commission.

**21. Procedure before commencement of the poll.**—(1) The returning officer shall immediately before the commencement of the poll allow inspection of the ballot box to be used at the poll to such candidates and authorised representatives of candidates as may be present at the place of polling.

(2) The returning officer shall then secure and seal the ballot box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open and shall also allow such candidates and authorised representatives of candidates as may be present to affix their own seals if they so desire.

**22. Admission to the place fixed for the poll.**—(1) The returning officer shall exclude from the place fixed for the poll all persons except—

- (a) the polling officers and other public servants on duty;
- (b) the candidates and one representative authorised in writing by each candidate;
- (c) such other persons as the returning officer may from time to time admit for the purpose of assisting him in taking the poll.

(2) The returning officer shall close the place fixed for the poll at the hour fixed for the close of the poll under rule 16 and shall not admit therein any elector after that hour:

Provided that all electors present at the place before it is closed shall be entitled to have their votes recorded.

**23. Procedure for giving ballot papers.**—(1) The returning officer shall have with him a copy of the list of electors prepared by him under rule 5 and immediately before a ballot paper is delivered to an elector, a mark shall be placed against his name in that list.

(2) No ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature against his name in the said list in token of receipt of the ballot paper.

**24. Supply of fresh ballot paper in certain cases and return of ballot paper by an elector.**—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on delivering it to the returning officer and on satisfying him of the inadvertence, obtain another ballot paper in place of the ballot paper so delivered and the latter shall be marked as 'cancelled' by the returning officer.

(2) All ballot papers cancelled under sub-rule (1) shall be kept in a separate packet set apart for the purpose.

(3) If an elector after obtaining any ballot paper for the purpose of recording his vote decides not to use the same he shall return the ballot paper to the returning officer who shall mark it as 'Returned-Cancelled' and keep it in a separate packet set apart for the purpose.

**25. Votes and preferences to be exercised by electors.**—(1) Every elector shall have one vote only.

(2) An elector in giving his vote—

- (a) shall place on his ballot paper the figure 1 in the place opposite the name of the candidates for whom he votes; and
- (b) may, in addition place on his ballot paper the figure 2 or the figure 2 and 3 or the figures 2, 3, and 4 and so on in the spaces opposite the names of other candidates in the order of his preferences.

*Explanation.*—The figures referred to in clauses (a) and (b) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the form used in any Indian Language but shall not be indicated in words.

(3) The returning officer shall, if requested by an elector, explain to him the instructions for the recording of votes.

**26. Sealing up of ballot boxes etc., at close of poll.**—(1) At the close of the poll the returning officer shall in the presence of such candidates and authorised representatives of candidates as may be present, close the slit of the ballot box.

(2) He shall also make up into separate packets—

- (a) the copy of the list of electors marked in accordance with rule 23;
- (b) the ballot papers cancelled under sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 24; and
- (c) the unused ballot papers;

and seal each such packet with his own seal and the seals of those candidates and authorised representatives of candidates who may desire to fix their seals thereon.

**27. Adjournment of poll in emergency.**—(1) If the proceedings at any place fixed for the poll are interrupted or obstructed by riot or open violence, or if it is not possible to take the poll at any such place on account of a natural calamity or any sufficient cause, the returning officer shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later, and immediately report the circumstances to the Election Commission.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1), the Election Commission shall, as soon as may be, fix the date on which and the place at which and the hours during which the adjourned poll shall be taken and shall notify the said details to all concerned in such manner as it may think fit.

(3) On the date on which such adjourned poll is taken, the electors who have already voted at the poll before its adjournment will not be entitled to vote, but only the remaining electors may vote at such adjourned poll.

#### CHAPTER V—*Counting of Votes and Declaration of Results*

##### **28. Definitions.**—In this Chapter—

(1) the expression 'continuing candidate' means any candidate not elected and not excluded from the poll at any given time;

(2) the expression 'count' means—

(a) all the operations involved in the counting of the first preference recorded for candidate; or

(b) all the operations involved in the transfer of the surplus of an elected candidate; or

(c) all the operations involved in the transfer of the total value of votes of an excluded candidate.

(3) the expression 'exhausted paper' means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate;

Provided that a paper shall also be deemed to be exhausted in any case in which—

(a) the names of two or more candidates, whether continuing or not, are marked with the same figure and are next in order of preference; or

(b) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper or by two or more figures;

(4) the expression 'first preference' means the figure 1, the expression 'second preference' means the figure 2 and the expression 'third preference' means the figure 3, set opposite the name of any candidate and so on;

(5) the expression 'original vote' in relation to any candidate means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded for such candidate;

(6) the expression 'surplus' means the number by which the value of votes, original and transferred, of any candidate exceeds the quota;

(7) the expression 'transferred vote' in regard to any candidate means a vote the value or the part of the value of which is credited to such candidate and which is derived from a ballot paper on which a second or a subsequent preference is recorded for such candidate; and

(8) the expression 'unexhausted paper' means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

**29. Time for counting of votes.**—(1) The returning officer shall commence the counting of votes as soon as practicable after the close of the poll, but on the same day.

(2) Votes shall be counted by, or under the supervision of, the returning officer and every candidate and one representative each of every candidate authorised

in writing by the candidate shall have the right to be present at the time of counting.

**30. Grounds for declaring ballot papers invalid.**—A ballot paper shall be invalid on which—

- (a) the figure 1 is not marked; or
- (b) the figure 1 is set opposite the name of more than one candidate or is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply; or
- (c) the figure 1 and some other figures are set opposite the name of the same candidate; or
- (d) any mark or writing is made by which the elector may afterwards be identified.

**31. Scrutiny and opening of ballot boxes.**—(1) The returning officer shall—

- (a) open the ballot box or boxes and take out from each box the ballot papers contained therein;
- (b) count the ballot papers so taken out or cause them to be counted.

(2) The returning officer shall then scrutinise the ballot papers taken out of the ballot boxes and separate the ballot papers which he deems valid from those which he rejects endorsing on the latter the word 'Rejected' and the ground for such rejection.

(3) After rejecting the ballot papers which are invalid the returning officer shall arrange the remaining ballot papers in parcels according to the first preference recorded for such candidate.

**32. Counting of votes.**—(1) The returning officer shall then count the number of papers in each parcel and credit the candidates concerned with the value of those papers.

(2) The returning officer shall also ascertain and record the total number of valid papers.

(3) For the purpose of facilitating the process prescribed in rules 33 to 38, each valid ballot paper shall be deemed to be of the value of one hundred.

(4) In carrying out the provisions of rules 33 to 38 the returning officer shall disregard all fractions and ignore all preferences recorded for candidates already elected or excluded from the poll.

**33. Ascertainment of quota.**—(1) The returning officer shall add together the values of the papers in all the parcels and divide the total by a number which exceeds by one the number of vacancies to be filled.

(2) The quotient so obtained increased by one shall be the number sufficient to secure the return of a candidate, hereinafter called 'the quota'.

**34. Candidates with quota elected.**—If at the end of any count or at the end of the transfer of any parcel or sub-parcel of an excluded candidate the value of ballot papers credited to a candidate is equal to, or greater than the quota, that candidate shall be declared elected.

**35. Transfer of surplus.**—(1) If at the end of any count the value of the ballot papers credited to a candidate is greater than the quota the surplus shall be transferred to the continuing candidates indicated on the ballot papers of that candidate as being next in order of the elector's preference in accordance with the provisions of this rule.

(2) If more than one candidate has a surplus, the largest surplus shall be dealt with first and the others in order of magnitude;

Provided that every surplus arising on the first count of votes shall be dealt with before those arising on the second count and so on.

(3) Where there are more surpluses than one to distribute and two or more surpluses are equal, regard shall be had to the original votes of each candidate



and the candidate for whom most original votes are recorded shall have his surplus first distributed; and if the values of their original votes are equal, the returning officer shall decide by lot which candidate shall have his surplus first distributed.

(4) (a) If the surplus of any candidate to be transferred arises from original votes only, the returning officer shall examine all the papers in the parcel belonging to that candidate, divide the exhausted papers into sub-parcels according to the next preference recorded thereon and make a separate sub-parcel of the exhausted papers.

(b) He shall ascertain the value of the papers in each sub-parcel, and of all the unexhausted papers.

(c) If the value of the unexhausted papers is equal to or less than the surplus, he shall transfer all the unexhausted papers at the value at which they were received by the candidate whose surplus is being transferred.

(d) If the value of the unexhausted papers is greater than the surplus, he shall transfer the sub-parcels of unexhausted papers, and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of unexhausted papers.

(5) If the surplus of any candidate to be transferred arises from transferred as well as original votes, the returning officer shall re-examine all the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate, divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preferences recorded thereon, and then deal with the sub-parcels in the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred to in sub-rule (4).

(6) The papers transferred to each candidate shall be added in the form of a sub-parcel to the papers already belonging to such candidate.

(7) All papers in the parcel or sub-parcel of an elected candidate not transferred under this rule shall be set apart as finally dealt with.

**36. Exclusion of candidates lowest on the poll.**—(1) If after all surpluses have been transferred as hereinbefore provided, the number of candidates elected is less than the required number, the returning officer shall exclude from the poll the candidate lowest on the poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuing candidates according to the next preferences recorded thereon; and any exhausted papers shall be set apart as finally dealt with.

(2) The papers containing original votes of an excluded candidate shall first be transferred, the transfer value of each paper being one hundred.

(3) The papers containing transferred votes of an excluded candidate shall then be transferred in the order of the transfers in which, and at the value at which, he obtained them.

(4) Each of such transfers shall be deemed to be a separate transfer but not a separate count.

(5) The process directed by this rule shall be repeated on the successive exclusions one after another of the candidates lowest on the poll until such vacancy is filled either by the election of a candidate with the quota or as hereinafter provided.

(6) If at any time it becomes necessary to exclude a candidate and two or more candidates have the same value of votes and are the lowest on the poll, regard shall be had to the original votes of each candidate and the candidate for whom fewest original votes are recorded shall be first excluded; and if the values of their original votes are equal the candidate with the smallest value at the earliest count at which these candidates had unequal value shall be first excluded.

(7) If two or more candidates are lowest on the poll and each has the same value of votes at all counts the returning officer shall decide by lot which candidate shall be first excluded.

**37. Transfer when to be discontinued.**—If as a result of the transfer of papers, the value of the votes obtained by a candidate is equal to or greater than the

quota the count then proceeding shall be completed but no further papers shall be transferred to him.

**38. Filling the last vacancies.**—(1) When at the end of any count the number of continuing candidates is reduced to the number of vacancies remaining unfilled, the continuing candidates shall be declared elected.

(2) When at the end of any count only one vacancy remains unfilled and the value of papers of some one candidate exceeds a total value of all the other continuing candidates together with any surplus not transferred that candidate shall be declared elected.

(3) When at the end of any count only one vacancy remains unfilled and there are only two continuing candidates and each of them has the same value of votes and no surplus remains capable of transfer, the returning officer shall decide by lot which of them shall be first excluded; and after the exclusion of one of the candidates in the manner aforesaid the other candidate shall be declared elected.

**39. Recounting.**—The returning officer shall at the instance of any candidate or of the authorised representative of a candidate in the absence of that candidate, recount votes whether once or more than once;

Provided that nothing in this rule shall make it obligatory on the returning officer to re-count the same votes more than once, provided he is satisfied as to the accuracy of the previous count.

**40. Illustration of the procedure as to the counting of votes under rules 32 to 39.**—An illustration of the procedure as to the counting of votes in accordance with the provisions of rules 32 to 39 is given in the Schedule to these rules.

**41. Declaration of results.**—When the counting of votes has been completed, the returning officer shall in the absence of any direction by the Election Commission to the contrary, forthwith—

(a) declare the result of the election to those present;

(b) prepare and certify a return of the election in form 6; and

(c) seal in separate packets the valid ballot papers and the rejected ballot papers and record on each such packet a description of its contents.

**42. Report of the result.**—(1) As soon as may be after the result of an election has been declared the returning officer shall report the result to the Election Commission and to such other authority as may be specified by the Commission.

(2) The Election Commission on receipt of such report shall cause to be published in the Official Gazette the declarations containing the names of the elected candidates.

(3) The returning officer shall, after reporting the result of the election under sub-rule (1), forward a certified copy of the return to the Election Commission.

**43. Date of election of candidate.**—For the purpose of these rules, the date on which a candidate is declared by the returning officer under rule 41 to be elected to the Provisional Legislative Assembly shall be the date of election of that candidate.

**44. Due constitution of Provisional Legislative Assembly.**—As soon as may be after the date fixed for the completion of election under clause (e) of rule 6, there shall be notified by the Election Commission in the Official Gazette, the names of persons elected as members of the Provisional Legislative Assembly and upon the issue of such notification, the said Assembly shall be deemed to be duly constituted.

#### CHAPTER VI.—Miscellaneous

**45. Custody of ballot boxes and election papers.**—All ballot boxes used at an election under these rules and the packets of ballot papers and all other papers relating to the election, shall, after the election, be kept in such custody as the Election Commission may direct.

**46. Disposal of election papers.**—All ballot papers and other papers relating to an election shall be destroyed after such period as the Election Commission may fix in this behalf.

**47. Bye-elections.**—When the seat of a member elected to the Provisional Legislative Assembly becomes vacant or is declared vacant or his election to the said Assembly is declared void, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette of Meghalaya, call upon the electoral college concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of the Act and of these rules, and the orders and directions issued or given thereunder shall apply as far as may be in relation to the election of a member to fill such vacancy.

**48. Disputes regarding election.**—In the event of any dispute arising out of any election held under these rules, the provisions of Part VI and Part VII of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) shall, so far as may be, apply in relation to the decision of such dispute as they apply in relation to the decision of any dispute arising out of the election of a member of a Legislative Council held under the said Act:

Provided that in such application—

- (a) any reference in the said provisions to the candidate's agent shall be construed as a reference to the candidate's authorised representative; and
- (b) the explanation below clause (7) of section 123 of the said Act shall be deemed to have been omitted.

**49. Power to issue orders and directions.**—The Election Commission may issue such orders or give such directions, as may be necessary, on any matter relating to election under these rules in respect of which these rules make no provision or make insufficient provision, and provision is in the opinion of the Election Commission necessary.

#### FORM I

[Sec rule 7 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

#### *Notice of Election*

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from the electoral college of the autonomous district of—

Whereas a notification under rule 3 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Elections to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970, for holding the above election has been issued. I,..... the returning officer for that election, do hereby give notice that—

- (a) forms of nomination paper may be obtained from the office of the undersigned or the office of the Assistant Returning Officer during office hours on any working day;
- (b) nomination papers may be delivered to the undersigned at his office in..... or to the Assistant Returning Officer in his office in..... between 11 A.M. and 3 P.M. on any day except on a public holiday not later than the.....
- (c) the scrutiny of nomination papers will take place at the office of the undersigned or the office of the Assistant Returning Officer on..... (date) at..... (hours)

Place.....

Signature .....

Date.....

Designation .....

## FORM 2

[See rules 8 and 9 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

*Nomination Paper*

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from the electoral college of the autonomous district of—

(To be filled by the proposer)

I hereby nominate ..... as a candidate for the above election.

- (1) Full name of the proposer.....  
 (2) Name of candidate's Father/husband.....  
 (3) Full postal address of candidate.....  
 (4) Electoral roll number of candidate in Assembly Constituency in Assam.....

Date.....

Signature of proposer.....

(To be filled by the candidate)

I, the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare that I have completed twenty five years of age.

Date.....

Signature of candidate.....

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper.....

This nomination was delivered to me at my office at ..... (hour) on ..... (date) by the \*candidate/proposer.

Date.....

Returning Officer.

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper.

I have examined this nomination paper in accordance with Rule II of the Assam Reorganisation (Meghalaya), and decide as follows:—

Date.....

Returning Officer.

(Perforation).....

Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of nomination paper.....

The nomination paper of ..... a candidate for election from the ..... electoral college of the autonomous district of ..... was delivered to me at my office at ..... (hour) on ..... (date) by the \*candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at ..... (hour) on ..... (date) at ..... (place).

Date.....

Returning Officer

\*Score out the word not applicable.

FORM 3

[See rule 8(2) of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Elections to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

*Form of Oath or Affirmation*

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to the Provisional Legislative Assembly:—

"I, A.S., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya do swear in the name of God \_\_\_\_\_ that I will bear true faith and allegiance \_\_\_\_\_ solemnly affirm to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India."

FORM 4

[See rule 12 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

*Notice of withdrawal*

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from electoral college of the autonomous district of \_\_\_\_\_

To

The Returning Officer,

I, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ a candidate at the above-mentioned election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place.....

Date.....

Signature of candidate.....

This notice was delivered to me at my office \_\_\_\_\_ (date) by \_\_\_\_\_ (Name) the candidate/candidate's proposer who has been authorised in writing by the candidate to deliver it.

Place.....

Date.....

Returning Officer

## FORM 5

[See rule 13 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

*List of Contesting Candidates*

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from the electoral college of the autonomous district of.....

Serial Number	Name of candidate	Address of candidate
1.		
2.		
3.		
4.		
etc.		

The poll will be taken between the hours of ..... and .....  
on ..... (date).

Place.....

Date.....

Returning Officer

## FORM 6

[See rule 41 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) (Election to the Provisional Legislative Assembly) Rules, 1970]

*Return of Election*

Election to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya from the electoral college of the autonomous district of.....

The result of the poll and of the transfer of votes is as follows:—

Number of Electors.....

Number of persons who voted.....

Number of valid votes.....

Number of members to be elected.....

Quota (Number of votes sufficient to secure the election of a candidate).....

Names of Candidates	First Count	Second Count		Third Count		Fourth Count		Names of elected candi- dates and order of elec- tion.
	Votes polled by each candi- date	Trans- fer of	Result	Trans- fer of	Result	Trans- fer of	Result	

Non-  
transferable  
paper

Loss due to  
fractions

I declare that—

(1) (Name) .....

(Address).....

(2) (Name) .....

(Address).....

(Signature)  
Returning Officer.

Etc..... has/have been duly elected.

Dated the ..... day of ..... 19 ..

## SCHEDULE

(See rule 40)

[Illustration of the procedure as to the counting of votes at an election on the single transferable vote system when more than one seat is to be filled].

Assume that there are seven members to be elected, sixteen candidates, and one hundred and forty electors.

The valid ballot papers are arranged in separate parcels according to the first preference recorded for each candidate, and the papers in each parcel counted.

Let it be assumed that the result is as follows:—

[illegible]

Each valid ballot paper is deemed to be of the value of one hundred and the values of the votes obtained by the respective candidates are as shown in the first column of the result sheet.

The values of all the papers are added together and the total 14,000 is divided by eight (i.e. the number which exceeds by one the number of vacancies to be filled) and 1,751 (i.e., the quotient 1,750 is increased by one) is the number sufficient to secure the return of a member and is called the quota.

The operation may be shown thus:—

$$\text{Quota} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,750 + 1 = 1,751$$

The candidate H, the value of whose votes exceeds the quota, is declared elected.

As the value of the papers in H's parcel exceeds the quota, his surplus must be transferred. His surplus is 149, i.e., 1,900 less 1,751.

The surplus arises from original votes, and therefore, the whole of H's papers are divided into sub-parcels according to the next preferences recorded thereon, a separate parcel of the exhausted papers being also made. Let it be assumed that the result is as follows:—

	Papers.
B is marked as next available preference on	7
D is marked as next available preference on	4
E is marked as next available preference on	4
F is marked as next available preference on	3
	<hr/>
Total of unexhausted papers	18
No. of exhausted papers	1
	<hr/>
Total of papers	19



The values of the papers in the sub-parcels are as follows:—

B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	700
D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	400
E	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	400
F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	300
<hr/>															
Total value of unexhausted papers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,800
Value of exhausted papers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100
<hr/>															
Total value	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,900

The value of the exhausted papers is 1,800 and is greater than the surplus. This surplus, is, therefore, transferred as follows:—

All the unexhausted papers are transferred, but at a reduced value, which is ascertained by dividing the surplus by the number of unexhausted papers.

The reduced value of all the papers, when added together, with the addition of any value lost as the result of the neglect of fractions, equals the surplus. In this case the new value of each paper transferred is

149 (the surplus)

18 (the number of unexhausted papers)

the residue of the value of each paper ( $10 - 8 = 92$ ), being required by H for the purpose of Constituting his quota, i.e. one exhausted paper value (100) plus the value (16,56) of 18 unexhausted papers.

These values of the sub-parcels transferred are:—

B = 56 (i.e., seven papers at the value of 8);

D = 32 (i.e., four papers at the value of 8);

E = 32 (i.e., four papers at the value of 8);

F = 24 (i.e., three papers at the value of 8).

These operations can be shown on a transfer sheet as follows:—

#### Transfer Sheet

Value of surplus (H's) to be transferred	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	149
Number of papers in H's parcel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Value of each paper in parcel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100
Number of unexhausted papers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Value of exhausted papers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,800
New Value of each paper transferred -														
Surplus;														149
														<hr/>
Number of unexhausted papers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18

Names of Candidates marked as the next available preference

										Numbers of papers to be transferred	Value of sub- parcels to be transferred
B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	56
D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	32
E	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	32
F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	24
										<hr/>	
TOTAL										18	144
										<hr/>	
Number of exhausted papers										1	..
Loss of value owing to neglect of fractions										..	5
										<hr/>	
TOTAL										19	149

The values of the sub-parcels are added to the values of the votes already credited to the candidate. This operation is shown on the result sheet.

There being no further surplus, the candidate lowest on the poll has now to be excluded. G and O both have 400.

The Returning Officer casts lots and G is chosen to be excluded.

Being original votes, G's papers are transferred at the value of 100 each. A who was marked as next preference on two papers receives 200, while D and E were each next preference on one paper and receiving 100 each. O now being lowest is next excluded and his 400 is similarly transferred to I, B and K, I receiving 200 and B and K 100 each.

This leaves J and P lowest with 500 each and J is chosen by lot for exclusion first. His papers are transferred at the value of 100 each to A, B, D and I, the three first named receiving 100 each, and I who had the next preference on two papers receiving 200. P is then excluded and his papers are transferred to E, L and K, the two first named receiving 100 each, and K, who had the next preference on three papers, receiving 300.

K now exceeds the quota and is declared elected.

Prior to further exclusion, K's surplus of 49 has to be distributed.

The sub-parcel last transferred to K consisted of 3 votes transferred at the value of 100 each. This sub-parcel is examined; there are no exhausted papers and B, F and I are each next preference on one paper and one paper is transferred to each of them at a reduced value determined by dividing the surplus (49) by the number of unexhausted papers (3), B, F and I accordingly receive 16 each.

The process of exclusion is now proceeded with.

C and N have 600 each, and C is chosen by lot for exclusion first. He has 6 original votes; B, D and E are each next preference on two papers, and each receives 200. N is then excluded; A is next preference on 3 of his papers, and receives 300; F, I and L are each next preference on one paper and receive 100 each.

This brings A and I above the quota and they are declared elected. Their surplus have now to be distributed and I's surplus which is the larger, 65, is dealt with first.

The last sub-parcel transferred to I consisted of one paper transferred at the value of 100, D is next preference on this paper, and receives the whole surplus of 65.

A's surplus of 49 is then dealt with. The last sub-parcel transferred to him consisted of 3 papers transferred at the value of 100 each. B was next preference on two of these papers and E on one, and the papers are transferred accordingly. The value to be transferred is 16 per paper, i.e., the surplus (49), divided by the number of the unexhausted (3). B accordingly receives 32 and E 16.

No other candidate having reached the quota, the process of exclusion is proceeded with, and F, who is now lowest with 840, is excluded.

His seven original votes are transferred first. B, D, and E are next preference on three, two, and two papers, respectively, and receive respectively 300, 200 and 200.

The transferred votes are next transferred in the order of their transfers to F. The 3 votes received at the value of eight each at the distribution of H's surplus are transferred at the same value to L who was next preference on all 3 papers. The vote valued at sixteen received by F at the distribution of K's surplus, goes at the same value to M, who was next preference on that paper. The vote transferred at the value of 100 on the exclusion of N is then transferred at the same value to D, who thus receives a total of 300.

No continuing candidate having yet reached the surplus, N who is now lowest with 1016 is excluded.

His ten original votes are transferred first. B and D are first preference on three papers each and E and I, on two each. B and D accordingly receive 300 each, and E and L 200 each. This brings B, D and E above the quota, and

they are declared elected. The requisite number of candidates having now been elected, the election is at an end, and it is unnecessary to proceed to the transfer of M's transferred votes.

Full Details are shown in the result sheet.

## RESULT

Value of votes 14,000

Name of candidate	Value of votes at first count	Distribution of H's surplus	Result	Distribution of votes of G and O	Result	Distribution of votes of J and P	Result	Distribution of K's surplus	Result
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	1,200	..	1,200	+200	1,400	+100	1,500	..	1,500
B	800	+56	856	+100	956	+100	1,056	+16	1,072
C	600	..	600	..	600	..	600	..	600
D	900	+32	932	+100	1,032	+100	1,132	..	1,132
E	1,000	+32	1,032	+100	1,132	+100	1,232	..	1,232
F	700	+24	724	..	724	..	724	+16	740
G	400	..	400	-400	..	..	..	..	..
H	1,900	-149	1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751
I	1,300	..	1,300	+200	1,500	+200	1,700	+16	1,716
J	500	..	500	..	500	-500	..	..	..
K	1,400	..	1,400	+100	1,500	+300	1,800	-49	1,751
L	800	..	800	..	800	+100	900	..	900
M	1,000	..	1,000	..	1,000	..	1,000	..	1,000
N	600	..	600	..	600	..	600	..	600
O	400	..	400	-100	..	..	..	..	..
P	500	..	500	..	500	-500	..	..	..
Loss of value by neglect of fractions		+5	5	..	5	..	5	+1	6
TOTAL.	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000

SECRET

$$\text{Quota} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,751$$

Distribution of votes of C and N	Result	Distribution of surplus of I and A	Result	Distribution of F's votes	Result	Distribution of M's votes	Result	Result of Election
11	12	13	14	15	16	17	18	19
+300	1,800	-49	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
+200	1,272	+32	1,304	+300	1,604	+300	1,904	Elected
-600	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
+200	1,332	+65	1,397	+300	1,697	+300	1,997	Elected
+200	1,432	+16	1,448	+200	1,648	+200	1,848	Elected
+100	840	..	840	-840	..	..	..	Not Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
+100	1,816	-65	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	1,751	..	1,751	..	1,751	..	1,751	Elected
+100	1,000	..	1,000	+24	1,024	+200	1,224	Not Elected
..	1,000	..	1,000	+16	1,016	-1,000	+16	Not Elected
-600	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	..	..	..	..	..	..	..	Not Elected
..	6	+1	7	..	7	..	7	
..	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	

[No. 1/15/70-SR.]

M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy.

## गृह सञ्चालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च 1970

सा० का० नि० 394:—असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 (1969 का 55) की धारा 77 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

## अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 (1969 का 55) अभिप्रेत है ;

(ख) “आकस्मिक रिक्ति” से धारा 62 की उपधारा (5) में निर्देशित अस्थायी विधान सभा के सदस्य के पद की रिक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) “निर्वाचन क्षेत्र” से असम की विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र जैसा यह मेघालय में समाविष्ट है, अभिप्रेत है ;

(घ) “निर्वाचन” से अस्थायी विधान सभा का गठित करने के लिए साधारण निर्वाचन अभिप्रेत है और इस में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन सम्मिलित है ;

(ङ) “निर्वाचक” से धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्देशित मेघालय में किसी स्वायत्त जिले की जिला परिषद् का निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत है ;

(च) “निर्वाचकगण” से धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्देशित निर्वाचकगण अभिप्रेत है ;

(छ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ज) “शासकीय राजपत्र” से भारत का राजपत्र अभिप्रेत है ;

(झ) “अस्थायी विधान सभा” से धारा 62 में निर्देशित मेघालय की अस्थायी विधान सभा अभिप्रेत है ;

(ञ) “लोक अवकाश दिन” से कोई ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश दिन है ;

(ट) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

**अध्याय 2—मेयालय की अस्थायी विधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन**

3. **अस्थायी विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अस्थायी विधान सभा के गठित करने के प्रयोजन के लिए एक साधारण निर्वाचन किया जायेगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए गवर्नर ऐसी तारीख या तारीखों को जिन की सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा प्रत्येक निर्वाचकगण से अपेक्षा करेगा कि इन नियमों के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए आदेशों के अनुसरण में सदस्य निर्वाचित करें ।

**अध्याय 3—रिटनिंग आफिसरों की नियुक्ति और अन्वयियों के नामनिर्देशन**

4. **रिटनिंग आफिसर और सहायक रिटनिंग आफिसर—**

(1) हर निर्वाचन के लिए एक रिटनिंग आफिसर होगा, जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग नियुक्त करे ।

(2) निर्वाचन आयोग रिटनिंग आफिसर की उस के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए प्रत्येक निर्वाचकगण के लिए सरकार के किसी आफिसर को, सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(3) हर सहायक रिटनिंग आफिसर रिटनिंग आफिसर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रिटनिंग आफिसर के सब कृत्यों या उन में से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा ।

(4) इन नियमों में रिटनिंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो रिटनिंग आफिसर के किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटनिंग आफिसर भी समझा जाएगा ।

5. **निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची.**—रिटनिंग आफिसर निर्वाचकों की उन के पते सहित अद्यतन शुद्धकृत सूची रखेगा और विभिन्न निर्वाचकगणों के लिए विभिन्न सूचियाँ रखी जाएंगी ।

6. **नाम निर्देशनों आदि के लिए तारीखें नियुक्त करना.**—नियम 3 के अधीन जैसे ही किसी सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए किसी निर्वाचकगण से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए, वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा —

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख जो कि प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले सातवें दिन की होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;

- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख के अव्यवहित आगामी दिन की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख जो नाम निर्देशनों की संवीक्षा के लिए तारीख के पश्चात् दूसरे दिन की होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ; ]
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा, अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख के पश्चात् सातवें दिन से बाद को न होने वाली तारीख होगी, तथा
- (ङ) वह तारीख जिस के पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा, नियत करेगा ।

7. **आश्रयित निर्वाचन की सूचना.**—नियम 6 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने पर रिटनिंग आफिसर आश्रयित निर्वाचन की लोक सूचना प्ररूप 1 में देगा और ऐसी रीति से, ऐसी भाषा या भाषाओं में और ऐसे स्थानों पर जैसा निर्वाचन आयोग निर्देशित करे, प्रकाशित कराएगा ।

8. **निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन.**—कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में, जैसे ही प्ररूप 2 में पूरित नाम निर्देशित पत्र, दोनों, उस व्यक्ति को ऐसे अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन करने वाले प्रस्थापक द्वारा और उस व्यक्ति द्वारा जो नाम निर्देशन की अनुमति देता है हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, नाम निर्देशित हो जाता है भले ही नियम 9 के अधीन नाम निर्देशनपत्र रिटनिंग आफिसर को किसी भिन्न तारीख को दिए जाएं ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन नाम निर्देशन पत्र देने के समय उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए यथास्थिति संविधान, अधिनियम और इन नियमों के ऐसे उपबन्धों के अधीन, अहित है तो वह यथापूर्वोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्देशित किया जा सकेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के वास्ते तब तक इस प्रकार अहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त प्ररूप 3 के अनुसार रिटनिंग आफिसर या सहायक रिटनिंग आफिसर के समक्ष कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता और हस्ताक्षर नहीं करता ।

(3) “प्रस्थापक” शब्द, इस नियम में या अन्य किसी नियम में, जहां कहीं भी आता हो, से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे निर्वाचन में जिस से नामनिर्देशन संबंधित है, मत देने का हकदार है ।



9. नामनिर्देशन-पत्रों का उपस्थित किया जाना.—(1) नियम 6 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख को या इसके पूर्व हर एक अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रस्थापक द्वारा पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच रिटनिंग आफिसर या सहायक रिटनिंग आफिसर को उस स्थान पर जो नियम 7 के अधीन निकोली गई सूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, प्ररूप 2 में पूरित और अभ्यर्थी और उस के प्रस्थापक द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करेगा :

परन्तु कोई भी नाम निर्देशन-पत्र रिटनिंग आफिसर को ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन हो ।

(2) कोई भी नामनिर्देशन-पत्र जो नियम 6 के खण्ड (क) के अधीन नियत अन्तिम तारीख के अपराह्न तीन बजे के पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा।

(3) इस नियम की कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने से निवारित नहीं करेगी :

परन्तु चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से न तो उपस्थित किए जाएंगे और न रिटनिंग आफिसर द्वारा प्रतिगृहीत किए जाएंगे ।

10. नामनिर्देशन-पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया.—नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने पर रिटनिंग आफिसर—

(क) नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित करने का समय और तारीख कथित करने वाला एक प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करेगा और उस पर उसकी क्रम संख्यांक प्रविष्ट करेगा ;

(ख) नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को नामनिर्देशन की संवीक्षा के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की इत्तिला देगा ; और

(ग) इस नियम के खण्ड (क) के अधीन यथा प्रमाणित और संख्यांकित नामनिर्देशन-पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

11. नाम निर्देशन की संवीक्षा.—(1) नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, हर एक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यकरूप से प्राधिकृत एक दूसरा व्यक्ति उपस्थित रहने का हकदार होगा ; और रिटनिंग आफिसर सब अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जो नियम 9 में अधिकथित समय के भीतर और रीति में परिदत्त किए गए हैं परीक्षा करने के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

(2) रिटनिंग आफिसर तब नामनिर्देशन-पत्रों की परीक्षा करेगा और उन सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो उनमें से किसी की बाबत किए गए हों ।

(3) रिटनिंग आफिसर या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरण से और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, अर्थात् :—

((क) कि अभ्यर्थी धारा 62 की उपधारा (4) या नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन अर्हित नहीं है ; या

- (ख) कि प्रस्थापक ऐसे निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं है जिससे नामनिर्देशन संबंधित है; या
- (ग) कि अभ्यर्थी का या प्रस्थापक का हस्ताक्षर असली नहीं है या कपट द्वारा अभिप्रात किया गया है; या
- (घ) कि नामनिर्देशन-पत्र सम्यक रूप से पूरित नहीं किया गया है और टुटि या अनियमितता सारवान स्वरूप की है—किसी नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिक्षेपित कर सकेगा।

(4) जब कि यह साबित न कर दिया जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरुद्धता के अधीन है किसी निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावलि में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस नियम के प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह व्यक्ति जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र लिए निर्वाचक है।

(5) रिटर्निंग आफिसर नियम 6 के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख को संविधा करेगा और कार्यवाहियों का कोई स्थगन नहीं करेगा।

(6) रिटर्निंग आफिसर हर एक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे प्रतिगृहीत करने या प्रतिक्षेपित करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया गया है तो ऐसे प्रतिक्षेपण के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

12. अभ्यर्थिता वापस लेना:—(1) कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 4 में लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा और रिटर्निंग आफिसर को या तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक द्वारा जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है नियम 6 के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त कर दी जाएगी।

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना उप-नियम (1) के अधीन दी है उसे उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसी सूचना की प्राप्ति होने पर और इसके असली होने के बारे में अपना समाधान हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर उस पर वह तारीख और वह समय नोट करेगा जब यह परिदत्त की गई थी और उसकी एक प्रति एक नोट के साथ अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

13. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन:—इन नियमों के अधीन मतदान कराए जाने की दशा में रिटर्निंग आफिसर उस कालावधि के जिसके भीतर नियम 12 के अधीन अभ्यर्थिताएं वापस ली जा सकेंगी, अवसान के अव्यवहित पश्चात्—

- (क) प्ररूप 5 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची जिसमें उनके नाम और पते उसी क्रम में हों जिसमें उनके नामनिर्देशन प्रस्तुत किए गए हैं, उनके पते जैसे कि नामनिर्देशन-पत्र में दिए गए हैं, सहित प्ररूप 5 में तैयार करेगा, अर्थात् वे अभ्यर्थी जिनके नामनिर्देशन-पत्र विधिमन्य पाए गये और जिन्होंने नियम 12 के अनुसार अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।

- (ख) उक्त सूची ऐसी रीति से प्रकाशित करवाएगा जैसी कि निर्वाचन आयोग निदेश करे; और
- (ग) उक्त सूची को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

#### 14. अभ्यर्थी की मृत्यु और मतदान प्रत्यादिष्ट करना—

(1) निम्नलिखित दशाओं में अर्थात् :-

- (क) नियम 6 के उप-नियम (क) के अधीन नामनिर्देशन करने के लिये नियत अन्तिम तारीख के 11 बजे पूर्वान्ह के बाद किसी समय यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नियम 11 के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा किए जाने पर उसका नामनिर्देशन विधिमाम्य ठहराया गया है, या
- (ख) यदि किसी अभ्यर्थी की जिसका नामनिर्देशन नियम 11 के अधीन संवीक्षा किए जाने पर विधिमाम्य ठहराया गया है और जिसने नियम 12 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है उस कालावधि के, जिसके भीतर नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन अभ्यर्थिताएं वापस ली जा सकेंगी, अवसान के पश्चात् किसी समय मृत्यु हो जाती है और इनमें से किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन निर्वाचन के फलों की घोषणा से पहले मृत्यु हो जाती है और ऐसी घोषणा से पहले मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु, तारीख और समय के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर आदेश द्वारा मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और समुचित प्राधिकारी को भी देगा और उस निर्वाचन के बारे में सभी कार्यवाहियां सब बातों में नए सिरे से ऐसे प्रारम्भ की जाएंगी मानो वे नए निर्वाचन के लिए हों;

परन्तु कोई भी आदेश सभी नामनिर्देशनों की, जिस में मृत अभ्यर्थी का नामनिर्देशन भी सम्मिलित है, संवीक्षा करने के पश्चात् के सिवाय मतदान प्रत्यादिष्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा ।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई भी आदेश मतदान प्रत्यादिष्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा—

- (क) जहां किसी मृत अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन संवीक्षा के समय नियम 11 के अधीन प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो; अथवा
- (ख) जहां किसी मृत अभ्यर्थी ने अपनी अभ्यर्थिता नियम 12 के अनुसार वापस ले ली हो ।

(3) ऐसा होते हुए भी कि कोई मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिया गया है—

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका नाम निर्देशन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है और जिस ने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, कोई अतिरिक्त नाम निर्देशन आवश्यक न होगा ;

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन दे दी है, ऐसे प्रत्यादिष्ट किए जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अपात्र न होगा ।

#### अध्याय IV—मतदान

15. **सर्वोपश्र और अवशेष निर्वाचनों में प्रक्रिया—**(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या चुने जाने वाले व्यक्ति यों की संख्या से अधिक है तो मतदान होगा ।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है तो रिटनिंग आफिसर तत्क्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उन स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा ।

(3) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कम है तो रिटनिंग आफिसर तत्क्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर देगा और निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित निर्वाचकों से अपेक्षा करेगा कि वे सम्यक् तारीख से पूर्व जैसी कि अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए शेष स्थान या स्थानों को भरने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करें ।

#### 16. मतदान का स्थान और समय नियत करना—

ऐसे हर निर्वाचन में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग —

(क) ऐसा स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा ;

(ख) ऐसा समय नियत करेगा जिस के दौरान मतदान होगा ; और

(ग) ऐसे नियत स्थान और समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा ।

17. **रिटनिंग आफिसर द्वारा मतदान का संचालन :—**(1) रिटनिंग आफिसर मतदान के लिए नियत स्थान पर मतदान का संचालन करेगा ।

(2) रिटनिंग आफिसर ऐसे मतदान आफिसर या आफिसरों को जैसा वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे नियुक्त कर सकेगा किन्तु उस निर्वाचन में या उस निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से जो कोई व्यक्ति नियोजित रह चुका है या उस के लिए काम करता रहा है वैसे किसी व्यक्ति को वह ऐसे नियुक्त न करेगा ।

18. **निर्वाचन में मत देने की रीति—**निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, मत इन नियमों के अनुसार गुप्त मतपत्र द्वारा दिये जाएंगे और मत परोक्षी के माध्यम से न लिये जाएंगे ।

19. **मत पत्र—**(1) मतपत्र ऐसे रूप में होगा और उस में की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसी कि निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित है ।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में मुद्रित किए जाएंगे जिस में वे नियम 13 के अधीन प्रकाशित चुनाव लड़ने की अभ्यर्थियों की सूची में हैं।

20. मत पेटीयाँ :—मतदान के उपयोग में लाई जाने वाली हर मत पेटी निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित परिकल्प की होगी।

21. मतदान के प्रारम्भ से पूर्व की प्रक्रिया :—(1) रिटनिंग आफिसर मतदान के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मत पेटी का निरीक्षण, ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, किए जाने के लिए अनुज्ञा देगा।

(2) रिटनिंग आफिसर तब पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्राबन्द करेगा कि मतपत्रों को उस में घुमाने के लिए छेद खुला रहे और यदि ऐसे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि जो उपस्थित हों, ऐसा करने की बांछा करें, तो उन्हें अपनी मुद्रा भी उस पर लगाने की अनुज्ञा देगा।

22. मतदान के लिये नियत स्थान में प्रवेश :—(1) रिटनिंग आफिसर—

- (क) मतदान आफिसरों और अन्य कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ;
- (ख) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एक प्रतिनिधि के ;
- (ग) ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिन्हें मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए रिटनिंग आफिसर समय-समय पर प्रवेश करने दें ;

सिवाय सब व्यक्तियों को मतदान के लिए नियत स्थान से अपवर्जित रखेगा।

(2) रिटनिंग आफिसर मतदान के लिए नियत स्थान को, मतदान बन्द करने के लिए नियम 16 के अधीन नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी भी निर्वाचक को वहां प्रवेश नहीं करने देगा :

परन्तु उस स्थान के ऐसे बन्द किए जाने के पूर्व उस में उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे।

23. मत पत्र देने के लिए प्रक्रिया :—(1) रिटनिंग आफिसर नियम 5 के अधीन स्वयं द्वारा तैयार की गई मतदाताओं की सूची की एक प्रति अपने पास रखेगा और किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने के ठीक पूर्व उस सूची में उसके नाम के आगे एक चिह्न लगा देगा।

(2) किसी भी निर्वाचक को मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह मतपत्र की प्र.पि के साध्यस्वरूप उक्त सूची में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर न कर दे

24. कतिपय वक्ताओं में नये मतपत्र का प्रकाय और निर्वाचक द्वारा मतपत्र का सटाया जाना—(1) कोई निर्वाचक, जिस ने अनवधानता से ऐसी रीति से अपना मतपत्र भरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग नहीं लाया जा सका, उसे रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त करने पर और उसका अनवधानता के बारे में समाधान कर लेने पर ऐसे परिदत्त मतपत्र के बदले दूसरा मतपत्र अभिप्राप्त कर सकेगा और परिदत्त मतपत्र पर “रद्द” शब्द चिह्नित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रद्द किए गए सभी मतपत्र अलग से पैकेट में जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् होगा, रखे जाएंगे।

(3) यदि निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो वह मतपत्र रिटर्निंग आफिसर को लौटा देगा जो उस पर “लौटाया गया और रद्द” शब्द चिह्नित करेगा और उसे एक अलग पैकेट में, जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् होगा, रख देगा।

25. निर्वाचकों द्वारा मतों और अधिमानों का प्रयोग करना—(1) हर निर्वाचक का केवल एक मत होगा :—

(2) निर्वाचक अपना मत देते समय —

(क) अपने मतपत्र में उसे अभ्यर्थी के नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगा देगा जिसे वह अपना मत देता है ; और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र में अन्य अभ्यर्थियों के नाम के सामने वाले स्थान में अपने अधिमानों के क्रम में अंक 2 या अंक 2 और 3 या अंक 2, 3 और 4 तथा इसी प्रकार से अंक लगा देगा।

रूप-टीहरण—इस उपनियम के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक, भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जाएं, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(3) रिटर्निंग आफिसर, यदि निर्वाचक निवेदन करे तो मत देने के लिए अनुदेशों के बारे में उसको समझाएगा।

26. मतदान समाप्त होने पर मत पेटियों आदि का मुद्रा बंद करना—(1) मतदान के समाप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष जो उपस्थित हों मत पेटी का छिद्र बंद करेगा।

(2) वह —

(क) नियम 23 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूची की प्रति ;

(ख) नियम 24 के उप-नियम (1) और उप-नियम (3) के अधीन रद्द किए गए मतपत्रों ; और

(ग) अप्रयुक्त मत पत्रों,

के अलग-अलग पैकेट भी बनाएगा और प्रत्येक ऐसे पैकेट को अपनी मुद्रा से और उन अभ्यर्थियों तथा अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, मोहरों से मुद्रा बंद करेगा ।

27. आमत में मतदान का स्थान—(1) यदि मतदान के लिए नियत किसी स्थान में कार्यवाहियों में, बलबे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाये, या यदि किसी ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति या किसी पर्याप्त हेतुक से मतदान करना संभव नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का आख्यापन करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और निर्वाचन आयोग को तत्क्षण परिस्थितियों की इतला देगा ।

(2) जब कभी उप-नियम (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाए तो निर्वाचन आयोग, यथाशक्ति शीघ्र नियत करेगा कि स्थगित मतदान किस तारीख को, किस स्थान पर और किस समय के दौरान किया जायेगा और सभी संबंधितों को उकाबदारे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(3) वह तारीख जिसको ऐसा स्थगित मतदान किया जाना हो, वे निर्वाचक जिन्होंने मतदान में उसके स्थान के पूर्ण ही भाग दे रखा हो भाग देने के हकदार नहीं होंगे, किन्तु केवल शेष निर्वाचक ही ऐसे स्थगित मतदान में मत दे सकेंगे ।

#### अध्याय V—मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

28. परिभाषा—इस अध्याय में—

(1) 'बने रहने वाले अभ्यर्थी' पद से कोई अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं किया गया है ।

(2) 'गणना' पद से—

(क) अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमात्र की गणना में अंतर्बलित सभी क्रियाएं; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी के अधिशेष के अन्तरण में अंतर्बलित सब क्रियाएं, अथवा

(ग) अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों के कुल मूल्यांक के अन्तरण में अंतर्बलित सब क्रियाएं, अभिप्रेत हैं ।

(3) 'निर्देशित पत्र' पद से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है :

परन्तु किसी पत्र की बाबत भी यह समझा जाएगा कि वह निर्देशित है, जब कभी—

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं; अथवा

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बने रहने वाला हो या न हो ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक का क्रमवर्ती अनुगामी अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिह्नित है ;

(4) 'प्रथम अधिमान' पद से अंक 1 अभिप्रेत है, 'द्वितीय अधिमान' पद से अंक 2 अभिप्रेत है, और 'तृतीय अधिमान' पद से अंक 3 अभिप्रेत है, जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा हो और इसी भांति आगे भी अभिप्रेत है ;

(5) 'मूल मत' पद से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिसमें ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित है ;

(6) 'अधिशेष' पद से वह संख्या अभिप्रेत है जितनी से किसी अभ्यर्थी के मूल और अंतरित मतों का मूल्यांक कोटा से अधिशेष में है ;

(7) 'अंतरित मत' पद से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जिसका मूल्यांक या जिसके मूल्यांक का भाग ऐसे अभ्यर्थी के नाम आकलित है और जो ऐसे मत पत्र से व्युत्पन्न है ऐसे अभ्यर्थी के लिए द्वितीय या पश्चात्पूर्वी अधिमान अभिलिखित है ; तथा

(8) 'अनिशेषित पत्र' पद से वह मत पत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ।

29. मतों की गणना का समय — (1) मतदान समाप्त हो जाने के बाद, यथासाध्य शीघ्र किंतु उसी दिन रिटर्निंग आफिसर, मतों की गणना प्रारंभ करेगा,

(2) मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी और हर अभ्यर्थी को तथा अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत हर अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि को यह प्राधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहें ।

30. मतपत्रों की अविधिमान्य धंशित करने के आशय — वह मत पत्र अविधिमान्य होगा जिस पर—

- (क) अंक 1 चिह्नित नहीं है ; या
- (ख) अंक 1, एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित है या ऐसे रखा गया हो कि वह बात शंकास्पद हो जाती हो कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए आशयित है ; या
- (ग) अंक 1 और कुछ अन्य अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित हैं ; या
- (घ) कोई ऐसा चिह्न या लिखावट है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है ।

31. मत पेटियों की संवीक्षा और उखाड़ खोला जाना — (1) रिटर्निंग आफिसर—

- (क) मत पेटी या पेटियों को खोलेगा और उन में अंतर्विष्ट मत पत्रों को हर एक पेटि से निकालेगा ;
- (ख) ऐसे निकाले गए मत पत्रों की गणना करेगा या उनकी गणना करवायेगा ।



(2) रिटर्निंग आफिसर तब तक मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों की संवीक्षा करेगा और जिन मत पत्रों को वह विधिमान्य समझता है, उन्हें उन मत पत्रों से पृथक् करेगा जिन्हें यह प्रतिक्षेपित करता है, प्रतिक्षेपित मत पत्रों पर 'प्रतिक्षेपित' शब्द और ऐसे प्रतिक्षेपण का आधार पृष्ठांकित करेगा ।

(3) अविधिमान्य मत पत्रों के 'प्रतिक्षेपण' करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर, शेष मत पत्रों को, ऐसे अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा ।

32. मतों की गणना—(1) रिटर्निंग आफिसर तब हर एक पार्सल में मत पत्रों की गणना करेगा और उन मत पत्रों के मूल्यांक को संबंधित अभ्यर्थियों के नाम आकलित करेगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर, विधिमान्य मत पत्रों की कल संख्या भी अभिलिखित तथा अभिलिखित करेगा ।

(3) नियम 33 से 38 तक में विहित प्रक्रिया को मुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक विधिमान्य मत पत्र की बाबत यह समझा जाएगा कि उसका मूल्यांक एक सौ है ।

(4) नियम 33 से 38 तक के उपबन्धों का पालन करने में रिटर्निंग आफिसर सभी भिन्नों को अवहेलना करेगा और निर्वाचित हो चुके या मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों को उपेक्षा करेगा ।

33. कंटा का अनिश्चयन—(1) रिटर्निंग आफिसर, सभी पार्सलों के मत पत्रों के मूल्यांकों को जोड़ेगा और जोड़ को उस संख्या से विभाजित करेगा जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो ।

(2) इस प्रकार प्राप्त भागफल, में एक जोड़ कर वह संख्या होगी जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या होगी जिसे इसके पश्चात् 'कोटा' कहा गया है ।

34. जित अभ्यर्थी कंटा प्राप्त हो चुका है वे निर्वाचित हों जायेंगे—यदि किसी गणना की समाप्ति पर या अपवर्जित अभ्यर्थी के किसी पार्सल या उप-पार्सल के अन्तरण की समाप्ति पर किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का मूल्यांकन कोटा के बराबर है या कोटा से अधिक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।

35. अधिशेष का अन्तरण—(1) यदि किसी गणना की समाप्ति पर किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मत पत्रों का मूल्यांकन कोटा से अधिक है तो अधिशेष इस नियम के उपबन्धों के अनुसार उन बने रहने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में अन्तरित कह दिया जाएगा जो कि उस अभ्यर्थी के मत पत्रों में निर्वाचक के अधिमान के क्रम में निकटतम के रूप में उपदर्शित हैं ।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को अधिशेष प्राप्त है तो अधिकतम अधिशेष का अन्तरण सब से पहले किया जाएगा, और अन्य को उन के परिणाम के क्रम में अन्तरित किया जाएगा ।

परन्तु मतों की प्रथम गणना में प्राप्त हर अधिशेष को दूसरी गणना में प्राप्त अधिशेष की अपेक्षा पहले अन्तरित किया जाएगा और इसी क्रम में अनुवर्ती क अधिशेषों को भी ।

(3) जहां एक से अधिक अधिशेषों का वितरण करना हो और वो या अधिक अधिशेष समान हों, वहां प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में सर्वाधिक मूल मत अभिलिखित हुए हों उसका अधिशेष सर्व प्रथम वितरित किया जाएगा ; और यदि उन के मूल मतों का मूल्यांकन समान है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का अधिशेष सर्वप्रथम वितरित किया जाए ।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष जो अन्तरित किया जाना है, केवल मूल मतों से ही प्राप्त हुआ है, तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के पार्सल में के सब मत पत्रों की परीक्षा करेगा, निश्शेषित पत्रों को उन में अभिलिखित निकटतम अधिमान के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा और निश्शेषित मत पत्रों का एक पृथक् उप-पार्सल बनाएगा ।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल में के मत पत्रों का और सभी अनिश्शेषित मत पत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा ।

(ग) यदि अनिश्शेषित मत पत्रों का मूल्यांकन अधिशेष के बराबर या उस से कम है तो वह सभी अनिश्शेषित मत पत्रों को उस मूल्यांक पर अन्तरित करेगा जिस पर वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिस का अधिशेष अन्तरित किया जा रहा है ।

(घ) यदि अनिश्शेषित मत पत्रों का मूल्यांक अधिशेष से अधिक है तो वह अनिश्शेषित मत पत्रों के उप-पार्सलों का अन्तरण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत-पत्र अन्तरित किया जाएगा अधिशेष को अनिश्शेषित मत-पत्रों की कुल संख्या से भाग देकर अभिनिश्चित किया जाएगा ।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष जो अन्तरित किया जाना है, अन्तरित और मूल मतों से प्राप्त हुआ हो तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को सब से अन्त में अन्तरित उप-पार्सल में के सब मत पत्रों की पुनः परीक्षा करेगा । अनिश्शेषित मत पत्रों को उन में अभिलिखित निकटतम अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा, और तब सब उप-पार्सलों को उसी रीति में अन्तरित करेगा । जैसी कि उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उप-पार्सलों की दशा में उपबंधित है ।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को अन्तरित मत पत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले मत पत्रों में एक उप-पार्सल के रूप में जोड़ दिए जाएंगे ।

(7) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल या उप-पार्सल में के वे सब मत पत्र जो इस नियम के अधीन अन्तरित नहीं किए गए हैं, अन्तिम रूपेण अन्तरित किए गए मत पत्रों के रूप में अलग रख दिए जाएंगे ।

36. निम्नतम मतदान वाले अभ्यर्थी का अपवर्जन—(1) इसमें इसके पूर्व उप-बंधित रूप से सब अधिशेषों को अन्तरित करने के पश्चात् यदि निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम हो तो रिटनिंग आफिसर निम्नतम मतदान वाले अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उस के अनिशेषित मत पत्रों को उन बने रहने वाले अभ्यर्थियों के बीच मत पत्रों में अभिलिखित निकटतम अभिमानों के अनुसार वितरित कर देगा और निशेषित मत पत्रों को अन्तिम रूपेण अन्तरित किए गए रूप में अलग रखेगा ।

(2) सर्वप्रथम किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के मूल मतों से युक्त मत पत्र अन्तरित किए जाएंगे ; प्रत्येक मत का अन्तरण मूल्य एक सौ होगा ।

(3) तब किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के अन्तरित मतों से युक्त मत पत्र अन्तरण के उस क्रम में जिस में और उस मूल्यांक पर जिस पर उस ने उन्हें अभिप्राप्त किया हो, अन्तरित किए जाएंगे ।

(4) ऐसे अन्तरणों में से प्रत्येक को पृथक अन्तरण समझा जाएगा किन्तु पृथक-गणना नहीं ।

(5) इस नियम द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया की पुनरावृत्ति निम्नतम मतदान वाले अभ्यर्थियों में से एक के पश्चात् दूसरे के उत्तरोत्तर अपवर्जनों में तब तक की जाएगी जब तक कि वह अरिथित या तो किसी कोटा वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन से या इस में इसके पश्चात् उपबंधित रूप में न भरे जाएं ।

(6) यदि किसी समय किसी एक अभ्यर्थी का अपवर्जन आवश्यक हो जाता है, और दो या अधिक अभ्यर्थियों के मतों का मूल्यांकन समान है और वे निम्नतम मतदान वाले हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में न्यूनतम मूल मत अभिलिखित हुए हों उसे सर्व प्रथम अपवर्जित किया जायगा; और यदि उनके मूल मतों का मूल्यांकन समान है तो सब से पहले वाली गणना में जिसमें इन अभ्यर्थियों के असमान मूल्यांकन थे सब से कम मूल्यांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सर्व प्रथम अपवर्जित किया जाएगा ।

(7) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी निम्नतम मतदान वालों हों और सभी गणनाओं में प्रत्येक के मतों का मूल्यांकन बराबर हो तो रिटनिंग आफिसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाएगा ।

37. आन्तरण का बन्द कर दिया जाएगा—यदि मत पत्रों के अन्तरण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांकन कोटा के बराबर या उस से अधिक हों तो उस समय चलने वाली गणना पूरी की जाएगी किन्तु कोई अन्य मत पत्र उसे अन्तरित नहीं किए जाएंगे ।

38. **अतिरिक्तियों की सूची**—(1) जब किसी गणना की समाप्ति तक बने रहने वाले अम्पथियों की संख्या रिक्तियों की उत संख्या के बराबर हो जाए जो भरी नहीं गई है तो ऐसे बने रहने वाले अम्पथियों को निर्वाचन घोषित कर दिया जाएगा।

(2) जब किसी गणना की समाप्ति पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाए और किसी एक अम्पथी के मत पत्रों का मूल्यांक अन्य सभी बने रहने वाले अम्पथियों के अनन्तरित अधिशेष सहित कुल मूल्यांक से आधिक्य में है तो वह अम्पथी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(3) जब किसी गणना की समाप्ति पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाए और केवल दो ही बने रहने वाले अम्पथी रह गए हों तथा उनमें से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक समान है और कोई अन्तरण-योग्य अधिशेष न रहा हो तब रिटनिंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि उनमें से किसे सबसे पहले अपवर्जित किया जाएगा; और अम्पथियों में से एक को पूर्वोक्त रीति में अपवर्जित करने के पश्चात् दूसरे अम्पथी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

39. **पुनर्गणना**—रिटनिंग आफिसर किसी अम्पथी या किसी अम्पथी की अनुपस्थिति में उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की प्रेरणना से चाहे एक बार या एक से अधिक बार पुनर्गणना करेगा ;

परन्तु इस उप-नियम की किसी बात से रिटनिंग आफिसर के लिये यह आबद्धक नहीं हो जायेगा कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार कराए परन्तु ऐसा तब जब पूर्वतन गणना की विशुद्धता के विषय में उसका समाधान हो जाए।

40. **नियम 32 से ले कर 39 तक के अशीत मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टान्त**—नियम 32 से लेकर 39 तक के उपबंधों के अनुसार मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टान्त इन नियमों की अनुसूची में दिया गया है।

41. **निर्वाचन परिणाम की विवरण**—जब मतों की गणना समाप्त हो जाए तब रिटनिंग आफिसर यदि निर्वाचन आयोग का तत्पत्तिकूल कोई निदेश न हो तो, तत्क्षण—

(क) जो उपस्थित हो उन्हें निर्वाचन का परिणाम घोषित कर देगा।

(ख) प्रहप 6 में निर्वाचन की विवरणी तैयार करेगा और प्रमाणित करेगा; और

(ग) विधिमान्य मत पत्रों और प्रतिक्षेपित मत पत्रों को अलग-प्रलग पैकिटों में मुद्रा बन्द करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट पर उसकी अर्न्तवस्तु का विवरण लिखेगा।

42. **निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट**—(1) निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटनिंग आफिसर निर्वाचन का परिणाम निर्वाचन आयोग को और ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए रिपोर्ट करेगा;

(2) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने पर निर्वाचन आयोग उन घोषणाओं को जिनमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हों, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की रिपोर्ट करने के पश्चात् रिटनिंग आफिसर विवरणी की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेगा।

43. **अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख**— इन नियमों के प्रयोजन के लिये वह तारीख जिसको नियम 41 के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी को अस्थायी विधान सभा के लिये निर्वाचित घोषित किया जाए, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख होगी।

44. **अस्थायी विधान सभा का संयुक्त गठन** :— नियम 6 के खण्ड (ड०) के अधीन निर्वाचन पूरा होने के लिये नियत तारीख के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अस्थायी विधान सभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित उन व्यक्तियों के नाम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जायेंगे और ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने पर उक्त सभा संयुक्त रूप से गठित समझी जाएगी।

#### अध्याय 6—प्रकीर्ण

45. **मत पेटियों और निर्वाचन संबंधी कारगजों की अभिरक्षा** :— इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन के उपयोग में लाई गई सभी मत पेटियां और मतपत्रों के पैकेट तथा निर्वाचन संबंधी सभी अन्य कारगजों को निर्वाचन के पश्चात् ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा जैसी कि निर्वाचन आयोग निदेश करे।

46. **निर्वाचन संबंधी कारगजों का निदान** :— किसी निर्वाचन से संबंधित सभी मतपत्र और अन्य कारगज ऐसी कांक्षावधि के पश्चात् जैसी कि निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे नष्ट कर दिए जाएंगे।

47. **उत्तर-निर्वाचन** :— जब अस्थायी विधान सभा के लिये निर्वाचन किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या उस उक्त सभा के लिये उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब निर्वाचन आयोग मेघालय के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित निर्वाचक गणों से अपेक्षा करेगा कि वे ऐसी तारीख से पूर्व जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें और अधिनियम और इन नियमों के उपबंध तथा उनके अधीन जारी किए गए या दिए गए आदेश और निदेश ऐसी रिक्ति को भरने के लिये किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे।

48. **निर्वाचन की बाबत विवाद** :— इन नियमों के अधीन किए गए किसी निर्वाचन से उद्भूत किसी विवाद की दिशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) के भाग 4 और 7 के उपबन्ध ऐसे विवाद के विनिश्चय की बाबत यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये गये विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन से उद्भूत किसी विवाद के विनिश्चय की बाबत लागू होते हैं :

परन्तु ऐसे लागू होने में—

(क) उक्त उपबंधों में अभ्यर्थी के अभिकर्ता के प्रति किसी निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जैसे कि वह अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रति निर्देश हो और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 123 के खंड (7) के नीचे का स्पष्टीकरण लुप्त हुआ समझा जाएगा।

49. **आदेश और निदेश जारी करने की शक्ति** :— निर्वाचन आयोग इन नियमों के अधीन निर्वाचन से संबंधित किसी भी ऐसे विषय पर जिसकी बाबत इन नियमों में कोई उपबंध नहीं हो या अपर्याप्त उपबंध हो और निर्वाचन आयोग की राय में उपबन्ध आवश्यक हो ऐसे आदेश जारी कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे आवश्यक हों।

## प्रका 1

[असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम, 1970 का नियम 7 में देखिये]

## [निर्वाचन की सूचना]

-----के स्वायत्त जिले के निर्वाचकगण से मेघालय की अस्थायी विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

यतः असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिये निर्वाचन) नियम 1970 के नियम 3 के अन्वीन उपर्युक्त निर्वाचन कराने के लिये अधिसूचना जारी की गई है ।

मैं-----उस निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर एतद्वारा सूचना देता हूँ कि :-

(क) नाम निर्देशन पत्र के प्रत्येक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से या सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय से किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान अभिप्राप्त किए जा सकेंगे ।

(ख) नाम निर्देशन पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को-----में उसके कार्यालय में या सहायक रिटर्निंग आफिसर को-----में उसके कार्यालय में-----के पश्चात् लोक अवकाश दिन के सिवाय किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परित्त किए जा सकेंगे ।

(ग) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय या सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में----- (तारीख) को----- (समय) की जाएगी ।

स्थान-----हस्ताक्षर-----

तारीख-----पदाभिधान-----

## प्रका 2

[असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन), नियम] 1970 का नियम 8 और 9 देखिये]

## नाम निर्देशन पत्र

.....के स्वायत्त जिले के निर्वाचकगण से मेघालय की अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

(प्रस्थापक द्वारा भरा जाए)

मैं ..... को उपर्युक्त निर्वाचित के लिए अभ्यर्थी के रूप में एतद्वारा नाम निविष्ट करता हूँ ।

- (1) प्रस्थापक का पूरा नाम .....  
 (2) अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम .....  
 (3) अभ्यर्थी का पूरा डाक पता .....  
 (4) असम के निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी की निर्वाचक नामावलि संख्या .....

तारीख ..... प्रस्थापक के हस्ताक्षर .....

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय)

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

तारीख ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या .....

यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में ..... (तारीख)  
 को ..... (बजे) \*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परितस्त किया गया ।

तारीख ..... रिटनिंग आफिसर

नाम निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्रियित करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को असम पुनर्गठन (मेघालय) के नियम 11 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ —

तारीख ..... रिटनिंग आफिसर .....

(छिद्रण) .....

### नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या .....  
 .....का, जो.....स्वायत्त जिला  
 के.....निर्वाचकगण से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है नाम निर्देशन  
 पत्र मुझे .....में मेरे कार्यालय में.....को  
 .....अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया था।  
 सब नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....  
 (बजे).....(स्थान) में की जाएगी।

तारीख..... रिटनिंग आफिसर.....

\*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

#### प्रकार 3

[(असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम 1970  
 का नियम 8(2) देखिए)]

#### शपथ या प्रतिज्ञान का प्रकरण

अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान  
 का प्रारूप :—

“मैं, ..... क ख ..... जो मेघालय की अस्थायी विधान सभा में स्थान भरने  
 के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट हुआ हूँ

ईश्वर की शपथ लेता

.....हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची  
 सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता

अज्ञा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता प्रवृण्वण रखूँगा।”



प्रकरण 4

[असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम 1970 का नियम 12 देखिए]

### अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

..... के स्वायत्त जिले के निर्वाचकगण से मेघालय की अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

प्रेषिती—

रिटनिंग आफिसर

मैं ..... का ..... जो उपरिर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ ।

स्थान .....

तारीख . . . . .

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

यह सूचना ..... (नाम) अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है द्वारा .....  
(तारीख) को ..... (बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई ।

स्थान .....

तारीख . . . . .

रिटनिंग आफिसर

## प्ररूप 5

[असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम, 1970  
का नियम 13 देखिए]

## निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

.....के स्वायत्त जिले के निर्वाचक गण से मेघालय की अस्थायी  
विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्या

अभ्यर्थी का नाम

अभ्यर्थी का पता

1.

2.

3.

4.

आदि

मतदान ..... (तारीख) को.....बजे और.....

.....बजे के बीच होगा ।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर .....

## प्ररूप 6

(असम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) नियम, 1970 का  
नियम 41 देखिए)

## निर्वाचन की विवरणी

.....के स्वायत्त जिले के निर्वाचक गण से मेघालय की अस्थायी विधान  
सभा के लिए निर्वाचन

मतदान और मतों के अन्तरण का परिणाम निम्नलिखित रूप से है :—

निर्वाचकों की संख्या .....
उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मत दिया .....
विधिमाम्य मतों की संख्या .....
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या .....
कोटा (अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों की संख्या) .....

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना	द्वितीय गणना	तृतीय गणना	चतुर्थ गणना	निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन क्रम
	हर एक अभ्यर्थी को मिले मत ।	का परिणाम अन्तरण	का परिणाम अन्तरण	का परिणाम अन्तरण	

अनन्तरणीय  
मत पत्र

वधनों के कारण  
हुई हानि

मैं घोषित करता हूं कि —

- (1) (नाम).....  
(पता).....
- (2) (नाम).....  
(पता).....

.....आदि सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है /हो गये हैं

तारीख..... 19

(हस्ताक्षर)  
रिटनिंग आफिसर

## अनुसूची

(नियम 40 देखिए)

जब एक से अधिक स्थान भरे जाने हों तो तब निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतों की गणना के लिए प्रक्रिया का दृष्टांत ।

मान लीजिए कि सात सदस्य निर्वाचित होने हैं, सोलह अभ्यर्थी हैं और एक सौ चालीस निर्वाचक हैं ।

विधिमान्य मत पत्र हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान क्रम से पृथक्-पृथक् पार्सलों में रखे गए हैं और हर एक पार्सल में के मतपत्रों की गणना कर ली गई है ।

मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित रूप में है:—

क	.	.	.	.	.	.	.	12
ख	.	.	.	.	.	.	.	8
ग	.	.	.	.	.	.	.	6
घ	.	.	.	.	.	.	.	9
ङ	.	.	.	.	.	.	.	10
च	.	.	.	.	.	.	.	7
छ	.	.	.	.	.	.	.	4
ज	.	.	.	.	.	.	.	19
झ	.	.	.	.	.	.	.	13
ञ	.	.	.	.	.	.	.	5
ट	.	.	.	.	.	.	.	14
ठ	.	.	.	.	.	.	.	8
ड	.	.	.	.	.	.	.	10
ढ	.	.	.	.	.	.	.	6
ण	.	.	.	.	.	.	.	4
त	.	.	.	.	.	.	.	5

जोड़

140

हर एक विधिमान्य मतपत्र की बाबत यह समझा जाता है कि उसका मूल्यांक एक सौ है और क्रमागत अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त मतों का मूल्यांक वह है जो कि परिणाम पत्र प्रथम स्तम्भ में दर्शित है ।

सब मतपत्रों का मूल्यांक एक साथ जोड़ा जाता है और 14,000 जोड़ को आठ से (अर्थात् उस संख्या से जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है) भाग दिया जाता है और 1751 (अर्थात् भागफल 1750 में एक जोड़ कर) वह संख्या है जो सदस्य का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है और उसे कोटा कहा जाता है ।

यह प्रक्रिया ऐसे दर्शित की जा सकती है —

$$\text{कोटा} = \frac{14,000}{8} + 1 = 1,750 + 1 = 1,751$$

अभ्यर्थी ज, जिसके मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है ।

क्योंकि ज के पार्सल में के मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक है, इस लिए उसके अधिशेष मत अन्तरित किए जाने चाहिएं । उसका अधिशेष 149 अर्थात्, 1900 में से 1751 घटाकर है ।

यह अधिशेष मूल मतों में रूँदा होता है और इसलिए ज के सब मतपत्र उन पर अभिलिखित अगले अधिमातों के अनुरूप उप-पार्सलों में विभाजित किए जाते हैं और निश्शेषित मतपत्रों का एक पृथक पार्सल भी बनाया जाता है । मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित रूप में है ।

ख अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	7 मतपत्रों पर चिन्हित है ।
घ अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	4 मतपत्रों पर चिन्हित है ।
ङ अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	4 मतपत्रों पर चिन्हित है ।
च अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में	3 मतपत्रों पर चिन्हित है ।

अनिश्शेषित मतपत्रों का जोड़	18
निश्शेषित मतपत्रों की संख्या	1
मतपत्रों का जोड़	19

उप-पार्सलों में के मतपत्रों का मूल्यांक निम्नलिखित रूप में है:—

अ	.	.	.	.	.	.	.	700
घ	.	.	.	.	.	.	.	400
ङ	.	.	.	.	.	.	.	400
च	.	.	.	.	.	.	.	300
अनिश्शेषित मतपत्रों का कुल मूल्यांक	.	.	.	.	.	.	.	1 800
निश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक	.	.	.	.	.	.	.	100
कुल मूल्यांक	.	.	.	.	.	.	.	1,900

अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक 1,800 है और अधिशेष से अधिकतर है इसलिए यह अधिशेष निम्नलिखित रूप में अन्तरित किया जाता है:—

सब अनिश्शेषित मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं किन्तु न्यूनीकृत मूल्यांक पर अन्तरित किए जाते हैं जो मूल्यांक अधिशेष को अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या से भाग दे कर अभिविधित किया जाता है ।

जब कि सब मतपत्रों का न्यूनीकृत मूल्यांक एक साथ जोड़ा जाता है तब वह भिन्नों की उपेक्षा के फलस्वरूप मारे गए किसी मूल्यांक के सहित जोड़े जाने पर अधिशेष के बराबर होता है। इस अवस्था में हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक

149 (अधिशेष)

18 (अनिशेषित मतपत्रों की संख्या)

हर एक मतपत्र के मूल्यांक का शेष अर्थात् (100-8-92), जो अपना कोटा गठित करने के लिए ज द्वारा अपेक्षित है, अर्थात् एक निशेषित मतपत्र का मूल्यांक (100) घन 18 अनिशेषित मतपत्रों की मूल्यांक (1656) है।

अन्तरित उप-पार्सलों के ये मूल्यांक—

ख-56 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से सात मतपत्र)

घ-32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र)

ङ-32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र)

ज-24 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से तीन मतपत्र)

ये क्रियाएं अन्तरण पत्र पर निम्नलिखित रूप प्रदर्शित की जा सकती ह :-

अन्तरण पत्र

अन्तरित किए जाने वाले (ज के) अधिशेष का मूल्यांक . . . . .	149
ज के पार्सल में मतपत्रों की संख्या . . . . .	19
पार्सलों में हर एक मतपत्र का मूल्यांक . . . . .	100
अनिशेषित मतपत्रों की संख्या . . . . .	18
अनिशेषित मतपत्रों का मूल्यांक . . . . .	1,800

अधिशेष 149

हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक =  $\frac{149}{18} = 8$

अनिशेषित मतपत्रों की संख्या 18

अगले उपलब्ध अधिमान के रूप में चिन्हित अभ्यर्थियों के नाम	अन्तरित किए जाने वाले मतपत्रों की संख्याएं		अन्तरित किए जाने वाले उप-पार्सलों का मूल्यांक	
ख . . . . .	7		56	
घ . . . . .	4		32	
ङ . . . . .	4		32	
च . . . . .	3		24	
जोड़ . . . . .		18	144	
निशेषित मतपत्रों की संख्या . . . . .		1	0	
भिन्नों की उपेक्षा करने से मारे गए मूल्यांक . . . . .		..	5	
जोड़ . . . . .		19	149	

उप-पार्सलों के मूल्यांक अभ्यर्थी ख, घ, ङ और च के नाम पहले से ही जमा किए गए मतों के मूल्यांक के साथ जोड़े जाते हैं। यह क्रिया परिणाम पत्र पर दर्शित की जाती है।

अतिरिक्त अधिशेष न होने पर अब उस अभ्यर्थी को, जो मतदान में निम्नतम स्थान रखता है अपवर्जित किया जाना है। छ और ण दोनों के 400 मूल्यांक हैं।

रिटनिंग आफिसर लाट डालता है और छ अपवर्जित किए जाने के लिये चुना जाता है।

मूल मत होने के कारण छ के मतपत्र प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित किए जाते हैं। क जो दो मतपत्रों में अगले अधिमान के रूप में चिन्हित किया गया था 200 मूल्यांक प्राप्त करता है जबकि घ और ङ को, जो दोनों एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित किए गए हैं, हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं। अब निम्नतम होने के कारण हैं आगे अपवर्जित किया जाता है और उसके 400 मूल्यांक इसी प्रकार झ, ख और ट को अन्तरित किए जाते हैं, झ को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ख और ट में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं।

परिणामस्वरूप आ और त में से हर एक को 500 मूल्यांक मिलते हैं और वे निम्नतम रह जाते हैं और लाट द्वारा पहले अ अपवर्जन के लिए चुना जाता है। उसके मतपत्र 100 मूल्यांक प्रति मतपत्र से क, ख, घ, और झ को अन्तरित किए जाते हैं; पहले नामांकित तीन व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और झ को, जो दो मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है, 200 मूल्यांक प्राप्त

होते हैं। तब त अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतपत्र ड, ठ, और ट को अन्तरित किए जाते हैं, पहले नामांकित दो व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ट को, जो तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है, 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं।

ट अब कोटा पार कर गया है और इसलिये वह निर्वाचित घोषित किया जाता है।

आगे अपवर्जन के पूर्व ट का अधिशेष 49 वितरित किया जाना है।

ट को अन्तिम बार अन्तरित। उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित 3 मत हैं। इस उप-पार्सल की परीक्षा की जाती है। उस में कोई निशेषित मतपत्र नहीं है और ख, च और झ में से हर एक एक मतपत्र पर आने अधिमान के रूप में चिन्हित है और उन में से हर एक को एक मतपत्र उस न्यूनीकृत मूल्यांक पर जो कि अधिशेष (49) को अनिशेषित मतपत्र (3) की संख्या से भाग दे कर अवधारित किया जाता है, अन्तरित किया जाता है। ख, च और झ में से हर एक को तदनुसार 16 प्राप्त होते हैं।

अपवर्जन की प्रक्रिया अब आगे चलाई जाती है।

ग और ढ में से हर एक के 600 मूल्यांक हैं, और ग लाट द्वारा पहले अपवर्जित किए जाने के लिये चुना जाता है। उसके 6 मूल मत हैं; इनमें से दो मतपत्रों पर ख, घ और ङ में से हर एक अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है, और हर एक 200 मूल्यांक प्राप्त करता है। ङ तब अपवर्जित किया जाता है; क उसके मतपत्रों में से 3 पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है और 300 मूल्यांक प्राप्त करता है; च, झ और ठ में से हर एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है और हर 65 एक 100 मूल्यांक प्राप्त करता है।

परिणामस्वरूप क और झ कोटा से उपर पत्र च जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। उनके अधिशेष को अब वितरित किया जाना है और अधिकतर होने के कारण झ के अधिशेष 65 को बाइन पहले कार्यवाही की जाती है। झ को अन्तरित अन्तिम उप-पार्सल में एक मतपत्र है जो 100 मूल्यांक पर अन्तरित किया जाता है घ डम मतपत्र पर आने अधिमान के रूप में चिन्हित है और उसे का सारा अधिशेष प्राप्त हो जाता है।

तब क के अधिशेष 49 को बाबत कार्यवाही की जाती है। उसे अन्तिम अन्तरित उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित 3 मतपत्र हैं। इन मतपत्रों में से दो पर ख अगले अधिमान के रूप में चिन्हित है और ङ एक पर है और तदनुसार यह मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं। अन्तरित किए जाने वाले मूल्यांकन प्रति मतपत्र 16 हैं अर्थात् अधिशेष 49 को अनिशेषित मतपत्र (3) की संख्या द्वारा विभक्त करके ख को तदनुसार 32 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ङ को 16 मूल्यांक।

किसी अन्य अभ्यर्थी के कोटा तक न पहुंचने के कारण अपवर्जन की प्रक्रिया आगे चलाई जाती है और च जो 840 मूल्यांक के कारण अब निम्नतम है अपवर्जित किया जाता है।

उसके 7 मूल मत पहले अन्तरित किए जाते हैं। तीन, दो और दो मतपत्रों पर क्रमशः ख, घ और ङ अगल अधिमान के रूप में चिन्हित है और क्रमशः 300 200, और 200 मूल्यांक प्राप्त करते हैं।

अन्तरित मत आने अन्तरित किए जाने के क्रम में च को अन्तरित किए जाते हैं। ज के अधिशेष के वितरण में आठ प्रति मतपत्र आठ मूल्यांक से प्राप्त 3 मत उसी मूल्यांक पर ठ को अन्तरित किए जाते हैं जो सभी तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित था। ट के अधिशेष के वितरण में



च द्वारा सोलह मूल्यांक वाले प्राप्ति मत उसी मूल्यांक पर ड को जाते हैं जो उस मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित था। ड के अपवर्जन पर 100 के मूल्यांक पर अन्तरित मत जमी मूल्यांक पर घ को अन्तरित किया जाता है जो इस प्रकार कुल 300 मूल्यांक प्राप्त करता है।

किसी बने रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा अभी तक अधिशेष तक न पहुँचने के कारण ड जो अब 1016 मूल्यांक के कारण निम्नतम है अपवर्जित किया जाता है।

उसके इस मत मत पहले अन्तरित किए जाते हैं। ख और घ में से हर एक तीन मतपत्रों पर प्रथम अधिमान के रूप में चिह्नित हैं और ड और ठ में से हर एक दो मतपत्रों पर। ख और घ में से हर एक को तदनुसार 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ड और ठ में से हर एक को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं परिणामस्वरूप ख, घ और ड कोटा से ऊपर पहुँच जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या के अब निर्वाचित हो जाने पर निर्वाचन समाप्ति पर हैं और ड को अन्तरित मतों के अन्तरण के लिये आगे कार्यवाही करना आवश्यक है।

परिणाम-पत्र में पूरे-पूरे ध्येय दर्शाए गए हैं।

## परिणाम

मतों का मूल्यांक 14,000

अभ्यर्थी का नाम	पहली गण I में मतों का मूल्यांक	ज. अ. अ. विशेष का वितरण	परिणाम	छ और रा के मतों का वितरण	परिणाम	अ और त के मतों का वितरण	परिणाम	ट के अ. विशेष का वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	1,200	..	1,200	+200	1,400	+100	1,500	..
ख	800	+56	856	+100	956	+100	1,056	+16
ग	600	..	600	..	600	..	600	..
घ	900	+32	932	+100	1,032	+100	1,132	..
ङ	1,000	+32	1,032	+100	1,132	+100	1,232	..
च	700	+24	724	..	724	..	724	+16
छ	400	..	400	—400	..	..	..	..
ज	1,900	—149	1,751	..	1,751	..	1,751	..
झ	1,300	..	1,300	+200	1,500	+200	1,700	+16
ञ	500	..	500	..	500	—500	..	..

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
र	.	1,400	..	+ 100	1,500	+ 300	1,800	--49
ड	.	800	..	..	800	+ 100	900	..
ड	.	1,000	..	..	1,000	..	1,000	..
ड	.	600	..	..	600	..	600	..
ण	.	400	..	--400	..	..	..	..
त	.	500	..	..	500	--500	..	..
भिल्लों की उपेक्षा से मारे गए मत								
	..	+ 5	5	..	5	..	5	+ 1
जोड़	.	14,000	..	14,000	..	14,000	14,000	..

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,751	..	1,751	.	1,751	..	1,751	..	1,751	निर्वाचित
900	+100	1,000	..	1,000	+24	1,024	+200	1,224	अनिर्वाचित
1,000	..	1,000	..	1,000	+16	1,016	-1,000	+16	अनिर्वाचित
600	-600	..	..	..	..	..	..	..	अनिर्वाचित
..	..	..	..	..	..	..	..	..	अनिर्वाचित
..	..	..	..	..	..	..	..	..	अनिर्वाचित
6	..	6	+1	7	..	7	..	7	
14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	..	14,000	

[सं. ]

मो० ग० पिम्पुटकर,  
विशेष सचिव, भारत सरकार।

